



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आश्विन 1945 (श10)
(सं० पटना 880) पटना, शुक्रवार, 20 अक्टूबर 2023

सं०सं०-एम-4-08/2020/9475/वि०
वित्त विभाग

संकल्प
20 अक्टूबर 2023

विषय:- निविदा निष्पादन से संबंधित GFR, 2017 के नियम-144(xi) में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से किये गये संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उपनियम-(xxii) को संशोधित करने के सम्बन्ध में।

निविदा निष्पादन से संबंधित GFR, 2017 के नियम-144(xi) में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से किये गये संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उपनियम-(xxii) को संशोधित किया गया है।

तदनुसार सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:-

- (i) वित्त मंत्रालय, व्यय प्रभाग, (Procurement Policy Division), भारत सरकार के पत्रांक-No.F.-7/10/2021-PPD दिनांक 23.02.2023 द्वारा प्राप्त Office Memorandum एवं पत्रांक-No.F.-7/10/2021-PPD(1) दिनांक 23.02.2023 द्वारा प्राप्त order (Public Procurement No.4) में निहित निदेश राज्य सरकार द्वारा यथावत् अंगीकृत किया जाता है।
- (ii) भारत सरकार का संदर्भित दिशा-निर्देश Appendix-A के रूप में संलग्न है।
- (iii) भारत सरकार के संदर्भित दिशा-निर्देश में उल्लेखित सक्षम प्राधिकार से निबंधित ऐसे सीमावर्ती देशों के निविदादाता को बिहार राज्य के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अलग से निबंधन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभाग, सभी कार्यालय, सभी स्वायत्त संस्थान, सभी बोर्ड, सभी निगम, सभी संस्था, सभी प्राधिकार/प्राधिकरण, सभी सोसाईटी, सभी अभिकरण, राज्य सरकार के अधीन सभी लोक उपक्रमों एवं राज्य सरकार या उनके लोक उपक्रमों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त सभी पी0पी0पी0 प्रोजेक्ट इत्यादि में लागू होगा।

- (v) तदनुसार एतदसंबंधी पूर्व निर्गत वित्त विभागीय संकल्प सं०-4117 दिनांक-20.08.2020 उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी प्रतिलिपि सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 880-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>